

राजाजी और कॉरबेट टाइगर रज़िर्व के तहत गदिधों की चार प्रजातियों पर होगा अध्ययन

चर्चा में क्यों?

29 जुलाई, 2023 को उत्तराखण्ड वन विभाग के वाइल्ड लाइफ वार्डन चीफ डॉ. समीर सनिहा ने बताया कि प्रदेश में पहली बार राजाजी और कॉरबेट टाइगर रज़िर्व के तहत गदिधों की चार प्रजातियों के दो-दो पक्षियों पर सैटेलाइट टैग लगाकर अध्ययन किया जाएगा।

प्रमुख बंदि

- वाइल्ड लाइफ वार्डन चीफ ने बताया कि शिकारी श्रेणी का यह पक्षी वल्लिपुत होने की कगार पर है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) ने इन्हें वल्लिपुतप्राय पक्षी की श्रेणी में रखा है।
- राजाजी और कॉरबेट टाइगर रज़िर्व के तहत किये जाने वाले अध्ययन के लिये पक्षियों पर टैग लगाने के लिये वन विभाग ने शासन से अनुमति मांगी है।
- वदिति है कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गदिधों की संख्या उत्तराखण्ड में कतिनी है, इसका ठीक-ठीक आँकड़ा कसिी के पास नहीं है।
- वन विभाग की सांख्यिकी बुक में गदिधों की संख्या का वर्ष 2005 का डाटा दर्शाया गया है। इसके अनुसार संरक्षण क्षेत्रों में गदिधों की संख्या 1272 और संरक्षण क्षेत्रों के बाहर 3794 कुल 5066 है।
- इसके बाद से यह डाटा अपडेट नहीं किया गया है। अब वन विभाग ने एक बार फिर से गदिधों की दुनिया में झाँकने का बीड़ा उठाया है। इसके लिये डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया के सहयोग से गदिधों की चार प्रजातियों के दो-दो पक्षियों पर सैटेलाइट टैग लगाकर अध्ययन किया जाएगा।
- यह अध्ययन गढ़वाल में राजाजी टाइगर रज़िर्व और कुमाऊँ में कॉरबेट टाइगर रज़िर्व के तहत किया जाएगा। इस अध्ययन में गदिधों के रहवास, प्रवास, उनके रासते, रहन-सहन आदि के बारे में जानकारियाँ जुटाई जाएंगी।
- गदिध की इन प्रजातियों पर होगा अध्ययन:
 - लाल सरि गदिध (रेड हेडेड वलचर)
 - सफेद पूँछ वाला गदिध (हवाइट रम्पड वलचर)
 - सफेद गदिध (इजपिसनि वलचर)
 - प्लास फशि
- राजाजी टाइगर रज़िर्व के नदिशक और इस प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. साकेत बडोला ने बताया कि यह चारों शिकारी प्रजातियों के पक्षी बेहद दुर्लभ श्रेणी के हैं, लेकिन समय-समय पर उत्तराखण्ड के गढ़वाल और कुमाऊँ के विभिन्न क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति पाई गई है। इनके संरक्षण को लेकर वन विभाग संजीदा है। इसी के तहत इन पर वृहद अध्ययन किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट अगले तीन साल तक चलेगा।
- यह चारों शिकारी पक्षी शेड्यूल वन प्रजातियों के हैं। वन्यजीव अधिनियम के तहत ऐसे मामलों में विशेष प्रयोजन के लिये अनुज्ञ पत्र का अनुदान की व्यवस्था है। ऐसे मामलों में शिक्षा, शोध, अनुसंधान इत्यादि के लिये राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है।



PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/4-species-of-vultures-to-be-studied-under-rajaji-corbett-tiger-reserve>

